



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## थाना कबरई पुलिस टीम ने दुष्कर्म व गर्भपात से सम्बन्धित नामजद सभी 04 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा संयुक्त टीम का गठन उ0नि0 शिवरतन गुप्ता व उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में किया, गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 286/21 धारा 376/313/314/506 भादवि व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5क SC/ST Act से सम्बन्धित वांछित 04 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. शैलेन्द्र पुत्र रामनारायण विश्वकर्मा उम्र करीब 25 वर्ष 2. रामनारायण विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुल्लू विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष, 3. शिवनारायण विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुल्लू विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष निवासीगण ग्राम ग्योडी थाना खन्ना व गर्भपात करने वाली अभियुक्ता 4. डॉ0 हिना हमीद उर्फ हिना इसरत पत्नी अब्दुल हमीद उम्र करीब 38 वर्ष निवासी हिना हमीद हॉस्पिटल छिमौली रोड कस्बा व थाना मौदहा जिला हमीरपुर को गिरफ्तार किया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये उक्त अभियुक्तों को मां0 न्यायालय में पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवरतन गुप्ता
2. उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर
3. हे0कां0 रनवीर सिंह
4. कां0 इन्द्रपाल चौहान
5. का0 दीपक मौर्य
5. म0 कां0 वविता पाल





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **“परिवार परामर्श केन्द्र”**

### **कमेटी ने परिवार को बिखरने से बचाया-**

आज दिनांक 30.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम की अध्यक्षता में पुलिस लाइन अवस्थित सभा कक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के विवादित मामलों को गम्भीरता से सुना गया, जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों ने सूझबूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुये पति-पत्नी का आपसी समझौता कराया व दोनों को खुशी-खुशी वापस घर भेजा गया एवं जिन मामलों का निर्णय नहीं निकल सका उन मामलों में अगली तारीख दी गई ।

इस दौरान प्रभारी एण्टी रोमियो/मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, म०कां० कविता देवी, चांदनी वर्मा, प्रेमा द्विवेदी, प्रतिमा समाजसेविका अंशु शिवहरे, नेहा चन्सौरिया, समाजसेवी श्री मो० हनीफ, श्री शरद तिवारी दाऊ, श्री शिवकुमार गोस्वामी आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही ।

### **निस्तारित किये गये मामले का विवरण:-**

1. श्रीमती सीमा पत्नी सतीश निवासी ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित म0उ0नि0 रामकुमारी के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर 02 नफर वारण्टी अभियुक्त क्रमशः 1. कल्ला पुत्र डरैला 2. दसिया पुत्र ननुवा निवासीगण ग्राम पहाडिया थाना महोबकंठ, परिवाद सं0 684/2018 धारा 323/504/506 भादवि सम्बन्धित मां0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुलपहाड में वारण्टी था को गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्तों को मां न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. कल्ला पुत्र डरैला
2. दसिया पुत्र ननुवा

निवासीगण ग्राम पहाडिया थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।



### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. म0उ0नि0 रामकुमारी
2. कां सौरभ सिंह 3. कां0 अभिषेक



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर मुहल्ला चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी से 01 नफर वारण्टी अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र भइयालाल उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी जिला महोबा सम्बन्धित मु.न. 225/12 धारा 138(B) विद्युत अधिनियम माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 01 महोबा को गिरफ्तार कर मां0 न्यायालय के समक्ष पेश किया।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम :-**

1. उ0नि0 विनोद सिंह
2. कां0 बृजेश कुमार

### **नाम पता अभियुक्त :-**

चन्द्रशेखर पुत्र भइयालाल उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी जिला महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक ।

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं निर्भीक बनाने हेतु लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है ।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में जाकर महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्राओं को जागरूक एवं सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से “मिशन शक्ति फेज 3.0” अभियान के तहत स्कूल की सभी छात्राओं को जागरूक किया गया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों **1090** वूमेन पावर लाइन, **181** महिला हेल्पलाइन, **108** एंबुलेंस सेवा, **1076** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **112** पुलिस आपातकालीन सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **102** स्वास्थ्य सेवा, **155260** साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान कर पम्पलेट्स वितरित किये ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 30.09.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा कस्बा चरखारी में पैदल गस्त कर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके कस्बे में की गई संदिग्धों की चेकिंग**

शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 313 ई-चालान किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर 07 व्यक्तियों से 1100 ₹ वसूला गया ।



आज दिनांक 30.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा मय चरखारी पुलिस बल के साथ कस्बा गस्त किया गया तथा संभ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया एवं समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई । इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 30.09.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police